

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज को वर्ल्ड चैम्पियन्स के तौर पर मान्यता मिली *ब्रैम्पटन फायर ने अलबामा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले दर्जे के कई खिताब जीते*

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 फरवरी, 2020) – आज की सिटी काउंसिल (City Council) की मीटिंग में, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) के सदस्यों को, फायरफाइटर कॉम्बैट चेलेंज वर्ल्ड कम्पीटीशन (Firefighter Combat Challenge World Competition) में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई।

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और डिस्ट्रिक्ट चीफ – पीटर रीड (Peter Reid) के नेतृत्व में – ब्रैम्पटन की टीम में पांच ब्रैम्पटन फायरफाइटर थे; कैटी रोस (Katie Ross), डैन पाल्मर (Dan Palmer), एंथनी बुर्च (Anthony Burch), रायन डोस्मैन (Ryan Dosman) और इयान प्रिंग्ल (Ian Pringle), जिन्होंने कई व्यक्तिगत और टीम वाली प्रतियोगिताओं में पहला स्थान सुरक्षित किया।

प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतने की आशा में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट से प्रतियोगी, कई दिनों के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 2019 की चैंपियनशिप (2019 Championship) अक्टूबर 2019 में अलबामा के मोनगोमरी (Montgomery, Alabama) में हुई थी।

वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले, टीम ने सितंबर 2019 में ओशवा (Oshawa) में नैशनल फायरफिट (National FireFit) प्रतियोगिता में कई खिताब जीते थे।

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता का लंबा इतिहास रहा है। 2020 के लिए ट्रेनिंग योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। टीम, ब्रैम्पटन फायर (Brampton Fire) टीम में से नए सदस्यों की भर्ती करने और पिछले वर्ष की सफलता को दोहराने के लिए उत्साहित है।

झलकियां

- कैटी रोस ने फीमेल इन्डिविजुअल (Female Individual) श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।
- डैनी पाल्मर और कैटी रोस ने कोएड टैंडम (Coed Tandem) श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।
- कैटी रोस और एलिजा कार्वेलो (Elissa Carvello) (वॉन) ने फीमेल टैंडम (Female Tandem) श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।
- कैटी रोस, एलिजा कार्वेलो (वॉन) और केल्टी मे निकोल (Kelti May Nicol) (अल्बर्टा) ने फीमेल टीम रिले (Female Team Relay) श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।
- इयान प्रिंग्ल, डैनी पाल्मर और रायन डोस्मैन ने इन्डिविजुअल टीम (Individual Team) श्रेणी में छठा स्थान हासिल किया।
- इयान प्रिंग्ल और डैनी पाल्मर ने मेन्स टैंडम (Men's Tandem) श्रेणी में नौवां स्थान हासिल किया।

हवाले

“ये उपलब्धियां उस परिश्रम और ट्रेनिंग की शानदार साक्षी हैं, जो हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी टीम, हर दिन करती है। हम अपने फायरफाइटर्स की श्रेष्ठता के लिए प्रतिबद्धता हेतु उनके आभारी हैं और 2020 में उनका हौंसला बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह दूसरी मिसाल है कि हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज किस प्रकार से, इंडस्ट्री में श्रेष्ठ लीडर है। ब्रैम्पटन के निवासियों को गर्व महसूस कराने के लिए आपका धन्यवाद। टीम को शुभकामनाएं!”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर और चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज*

“यह एक शानदार जीत है, जिसमें कठिन ट्रेनिंग, अभ्यास, प्रतिबद्धता और हासिल करने के प्रति समर्पण आवश्यक है। मुझे इन प्रतियोगिताओं में हमारी टीम की शानदार उपलब्धियों और विभागीय सफलता के लंबे इतिहास पर गर्व है।”

- *बिल बोएस (Bill Boyes), फायर चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca